

अध्याय -14

एक पहल

इन शब्दों के अर्थ लिखो-

- साक्षात्कार - आमने सामने ।
साक्षात्कारकर्ता - सामने लाने वाला व्यक्ति ।
विकलांगता - शरीर के किसी अंग में दोष होना ।
खुशकिस्मत- अच्छा किस्मत वाला ।मशक्कत - मुश्किलें ।
पैदाइश-जन्म से। बुनियाद-नीव ।

सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ

- 1.जावेद आब्जन्म कब हुआ था?
क.1965 में [✓] ख.1968 में ग.1966 में
- 2.एन.सी.पी.ई.डी.पी. का पूरा नाम क्या है?
क. नेशनल सेंटर फॉर प्रोमेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल [✓]
ख.नेशनल आफ ग. इंडिया राजीव गांधी फाउंडेशन
3. जावेद आब्दी ने अपने काम की तुलना किससे की?
क. कठफोड़वा चिड़िया से [✓] ख.बाज पक्षी से ग. चील से अरबी
- 4.भाषा में जावेद का क्या अर्थ होता है ?
क.अमन अजय अमर [✓]
- 5.जावेद के पिता जी अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे?
डॉक्टर वकील टीचर
- 6.विशेष क्षमता वाले लोगों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम किसने किया?
क. जावेद अख्तर ने जावेद आब्दी ने [✓]
ख.मोहम्मद जिन्ना ने ग.जावेद आब्दी ने
7. जावेद ने पत्रकारिता की पढ़ाई कहाँ से की ?
क.रूस से ख.इंग्लैंड से ग.अमेरिका से [✓]

सही तथा गलत का निशान लगाओ

1. जावेद का जन्म इलाहाबाद के एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था। [X]
2. जावेद आब्दी अपने माता-पिता की तीसरी संतान थे। [X]
3. पैदाइश के तुरंत बाद डॉक्टरों ने जावेद के पीठ पर एक सूजन सी देखी। [✓]
4. जावेद आब्दी को पत्रकारिता से बहुत लगाव था [✓]
5. सन 1995 में देश का पहला डिसेबिलिटीएक्ट यानी विकलांगता संबंधित कानून बना। [✓]

दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो -

1. जावेद आब्दी कौन थी ?

उत्तर- जावेद आब्दी विकलांगता कार्यकर्ता थे जिन्होंने विकलांगों के हक के लिए आवाज उठाया।

2. जावेद आब्दी को कहीं नौकरी क्यों नहीं मिलती ?

उत्तर - जावेद आब्दी विकलांग थे लोग उनकी डिग्री नहीं देखते उनकी विकलांगता को देखकर उन्हें सांत्वना देते और कहते आप बहुत बहादुर हैं लेकिन आपने गलत रास्ता चुना है इस प्रकार जावेद आब्दी को कहीं नौकरी नहीं मिलती।

3. जावेद आब्दी ने विकलांगता के क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किए ?

उत्तर- जावेद आब्दी ने विकलांगता अधिनियम बनाया, विकलांगों को दफ्तरों, स्कूल, यातायात के सार्वजनिक साधनों आऔर मतदान केंद्रों तक पहुँचाने का कार्य।

4. एन.सी.पी.ई.डी.पी. की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या था?

उत्तर- एन.सी.पी.ई.डी.पी.की स्थापना का मुख्य लक्ष्य विशेष क्षमता वाले लोगों के अधिकारों शिक्षा रोजगार चलत फिरत या पहुँच के साधन, कानून - योजनाएँ और जागरूकता आदि आवश्यकताओं के लिए कार्य करना।

दिए गए वाक्य पढ़ें और रचना के आधार पर उसके भेद लिखिए-

1. मैं अमेरिका गया। (सरल वाक्य)
2. 8 साल तक मैं चलता था और दौड़ता था। (संयुक्त वाक्य)
3. पिताजी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। (सरल वाक्य)

4. कठफोड़वा एक छोटी- सी चिड़िया होती है और पेड़ का तना बहुत मोटा होता है । (संयुक्त वाक्य)

5.कंठफोड़वा चिड़िया जब पहली बार चोंचो मारती होगी तब तने की खाल भी नहीं छिलती होगी। (मिश्रित वाक्य)

विलोम शब्द लिखिए-

आदर-निरादर	अमर-नश्वर
अमृत- विश	आदर-निरादर
उत्कर्ष-अपकर्ष	हिंसा-अहिंसा

पर्यायवाची शब्द लिखो -

अंग- शरीर,तन,देह,काया
आनंद- हर्ष,मोद,प्रशन्नता
दास- नौकर, सेवक,भृत्य,अनुचर
गंगा - भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरि